

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 528]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 29 सितम्बर 2010—आश्विन 7, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर, 2010

फा. क्र. 17 (ई)-181-10-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश के नीमच जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु दिनांक 30 सितम्बर 2010 से 5 अक्टूबर 2010 तक की अवधि के लिये संलग्न सूची में उल्लेखित अधिकारियों को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

जिला—नीमच

1. श्री एस. के. प्लास, वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, नीमच
2. श्री व्ही. के. सांखला, खनि अधिकारी, नीमच
3. डॉ. एस. एस. भाटी, उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, नीमच
4. श्री ए. के. अग्निहोत्री, जिला आबकारी अधिकारी, नीमच
5. डॉ. राजेश पाटीदार, पशु चिकित्सक, पशु चिकित्सालय, मनासा.
6. श्री एस.सी. सोमानी, सहायक आबकारी अधिकारी, नीमच
7. श्री एस. एस. राठौर, अधीक्षक, परिवर्तित भूमि, जिला-नीमच
8. श्री जुवानसिंह भिड़े, खनि निरीक्षक, नीमच
9. श्री विजय सलाम, जिला खेल एवं युवक कल्याण अधिकारी, नीमच
10. श्री शरद शर्मा, नापतौल निरीक्षक, नीमच